

टेबल 3.4 : विदेश स्थित भारतीय वाणिज्य बैंकों की आस्तियां और देयताएं – 2006 से 2008 तक

(राशि अमेरिकी डॉलर मिलियन में)

मर्दे	मार्च 31 की स्थिति		
	2006	2007	2008
	(1)	(2)	(3)
बैंकों की संख्या	11	11	12
शाखाओं की संख्या	102	107	129
देयताएं			
1. प्रधान कार्यालय निधि	1801.48	2568.62	3479.04
2. ग्राहक जमाराशियां	12041.77	15366.14	20268.14
3. अंतर शाखा उधार	2958.37	3375.46	2386.34
4. अंतर बैंक उधार	9775.75	15165.02	22272.99
5. अन्य इंस्ट्रुमेंट्स ऋण	2029.59	6699.87	10040.03
6. अन्य देयताएं	729.67	1065.66	2112.10
कुल देयताएं	29336.63	44240.77	60558.64
आस्तियां			
1. हाथ में नकदी और केंद्रीय बैंको के पास जमा राशि	457.06	441.59	601.64
2. प्रतिभूतियों में निवेश	3882.04	4359.70	5445.68
3. अंतर शाखा जमाराशियां	3029.84	3791.94	5067.41
4. अंतर बैंक जमाराशियां	6213.21	10025.31	6833.58
5. ग्राहक ऋण	15080.09	24477.01	41063.37
6. संचित हानि	85.19	68.42	62.98
7. अन्य आस्तियां	20.00	1076.80	1483.98
कुल आस्तियां	28767.43	44240.77	60558.64

स्त्रोत : ओवरसीज शाखाओं की आस्तियां और देयताओं की विवरणी, बैंकिंग सर्वेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक ।